



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

13 फाल्गुन 1943 (श0)
(सं0 पटना 95) पटना, शुक्रवार, 4 मार्च 2022

सं0 4/कृ०शि०को०- 26/2021-1064/कृ०,
कृषि विभाग

संकल्प
25 फरवरी 2022

fo"l; % —f"l jkM e\$ ds dk; kJo; u dh vof/k 31-03-2023 rd foLrkfjr djus dh Loh—frA

राज्य में कृषि रोड मैप के माध्यम से कृषि क्षेत्र के सर्वांगीण विकास का कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है। पहले कृषि रोड मैप का कार्यान्वयन वर्ष 2008 से 2012 तक किया गया। दूसरे कृषि रोड मैप का कार्यान्वयन वर्ष 2012 से 2017 की अवधि में किया गया। तीसरे कृषि रोड मैप का कार्यान्वयन किया जा रहा है। तीसरे कृषि रोड मैप में कृषि अंतर्गत फसल एवं बागवानी के साथ-साथ पशु एवं मत्स्य संसाधन, ग्रामीण कार्य, जल संसाधन, लघु जल संसाधन, सहकारिता, गन्ना उद्योग, भूमि सुधार, भंडारण, ऊर्जा, पर्यावरण एवं वन तथा खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित कार्यक्रम शामिल हैं। कृषि रोड मैप के तहत प्रत्येक प्रक्षेत्र के लिए विजन, रणनीति एवं इसे प्राप्त करने के लिए योजना एवं माइलस्टोन निर्धारित किये गये हैं। इस रोड मैप की अवधि 31.03.2022 तक निर्धारित है।

2. विगत दो वर्षों में कोविड संक्रमण के कारण कृषि रोड मैप कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में असाधारण परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है। इसके फलस्वरूप कृषि रोड मैप के तहत निर्धारित लक्ष्य शत प्रतिशत प्राप्त नहीं किये जा सके हैं। इस प्रकार से कृषि रोड मैप के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अवधि विस्तार की आवश्यकता है।

3. कृषि रोड मैप के सूत्रण की प्रक्रिया कई चरणों में पूरा किया जाता रहा है। पहले, दूसरे एवं तीसरे कृषि रोड मैप के सूत्रण में किसानों की भागीदारी अनिवार्य रूप से ली गयी है। इसके लिए किसान पंचायत/किसान समागम का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी जिलों के किसानों ने भाग लिया है तथा उनके मूल्यवान सुझाव कृषि रोड मैप को बनाने में बहुमूल्य साबित हुआ है। कोविड संक्रमण के कारण विगत दो वर्षों से सामान्य कामकाज प्रभावित हुआ है। ऐसे में किसानों को पटना बुलाकर उनके साथ संवाद करने की स्थापित प्रक्रिया को पूरा करना संभव नहीं हो सका है।

4. राज्य मंत्रिपरिषद् के द्वारा दिनांक 03.10.2017 को कृषि रोड मैप (2017-2022) की स्वीकृति प्रदान की गयी है। तदनुसार वर्तमान में स्वीकृत कृषि रोड मैप का अवधि दिनांक 31.03.2022 को समाप्त हो रहा है। तीसरे कृषि रोड मैप के तहत निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति एवं नये कृषि रोड मैप का सूत्रण प्रक्रिया में किसानों की व्यापक भागीदारी

सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कृषि रोड मैप कार्यक्रमों का दिनांक 31.03.2023 तक विस्तार की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

उक्त प्रस्ताव में राज्य मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति दिनांक: 21.02.2022 को प्राप्त है, जो संचिका संख्या 4/कृ०शि०को०-26/2021 के पृ० 11/टि० पर संधारित है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
डॉ० एन० सरवण कुमार,
सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 95-571+10-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>